



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आश्विन 1932 (श0)
(सं0 पटना 711) पटना, शुक्रवार, 15 अक्टूबर 2010

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश

17 अगस्त 2010

सं० 1413—न्यू स्वदेशी सुगर मिल, नरकटियागंज, प० चम्पारण के लिये बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा-31 (1) के अंतर्गत ग्रामों का आरक्षण आदेश:-

पेराई सत्र 2010-11 एवं आगे के वर्षों के लिये ईख आपूर्ति हेतु ग्रामों के विभिन्न चीनी मिलों से प्राप्त आरक्षण प्रस्ताव पर सुनवाई सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, संबंधित ईख पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधितों के समक्ष दिनांक 06 अगस्त 2010 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से की गई। न्यू स्वदेशी सुगर मिल, नरकटियागंज प० चम्पारण द्वारा पूर्व में आरक्षित परम्परागत 314 ग्रामों के अलावा मैनाटांड प्रखंड के 97 ग्राम, सिकटा प्रखण्ड के 58 ग्राम तथा धनहां क्षेत्र के 31 मुक्त ग्रामों को अपने पक्ष में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है।

परम्परागत क्षेत्रों के अलावा मैनाटांड, सिकटा एवं सिकटा क्षेत्र में ग्रामों को आरक्षित करने के संबंध में नरकटियागंज चीनी मिल के प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि लौरिया चीनी मिल HPCL द्वारा वर्ष 2010-11 सत्र से प्रारम्भ होने के कारण पूर्व में उनके पक्ष में आरक्षित 64 ग्रामों को लौरिया चीनी मिल को दे दिया गया है, जिससे इन्हें 19 लाख क्विंटल गन्ना पेराई हेतु कम मिलने की संभावना है। जबकि इनके मिल की पेराई क्षमता भी बढ़कर 5000 TCD से 7500 TCD हो गया है। इनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि मैनाटांड और सिकटा क्षेत्र इनके पूर्व के परम्परागत आरक्षित क्षेत्र के बगल में सटा हुआ है, जो चीनी मिल से काफी नजदीक है, जहाँ वर्षों से गन्ना विकास का कार्य करा रहे हैं।

सुनवाई के क्रम में हरिनगर चीनी मिल के मैनेजर द्वारा मैनाटांड क्षेत्र को नरकटियागंज चीनी मिल दिये जाने के प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त किया गया। उनका कहना है कि हरिनगर चीनी मिल के पेराई की क्षमता भी बढ़कर 10000 TCD हो गई है। पिछले साल मैनाटांड क्षेत्र में 1 क्रय केन्द्र भी आवंटित किया गया था जहाँ से गन्ना क्रय करके वे अपने मिल में ले जाते थे। इनका यह भी कहना है कि हरिनगर चीनी मिल को भी लौरिया क्षेत्र में 22 ग्राम आरक्षित था, जिसे समाप्त किया गया है। ऐसी परिस्थिति में मैनाटांड प्रखण्ड के उक्त ग्रामों को हरिनगर चीनी मिल को सुरक्षित करने का अनुरोध करते हैं।

इस प्रकार मुक्त क्षेत्रों के आरक्षण के संबंध में दोनों पक्षों के सुनवाई के पश्चात् मैं पाता हूँ कि नरकटियागंज चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र से सटे बगल में मैनाटांड प्रखंड के 97 ग्राम अवस्थित हैं तथा नरकटियागंज चीनी मिल प्रबन्धन द्वारा कई प्रकार के गन्ना विकास का कार्य उक्त क्षेत्र में किया गया है। इसके विपरीत हरिनगर चीनी मिल की दूरी उक्त क्षेत्र में किया गया है। इसके विपरीत हरिनगर चीनी मिल की दूरी उक्त क्षेत्र से अधिक है। उनके किसी भी आरक्षित क्षेत्र से मैनाटांड क्षेत्र का लगाव नहीं है। मैनाटांड क्षेत्र से हरिनगर गन्ना ले जाने में नरकटियागंज क्षेत्र से होकर ही जाना पड़ता है। पिछले साल हरिनगर चीनी मिल को 1 क्रय केन्द्र आवंटित करने पर विधि व्यवस्था भी उत्पन्न हुई थी।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में सभी तथ्यों पर विचारोपरान्त निम्न आदेश दिया जाता है :-

- (1) नरकटियागंज चीनी मिल को परम्परागत रूप से पूर्व में आरक्षित 314 ग्रामों को वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक 5 वर्षों के लिये पुनः आरक्षित किया जाता है। आरक्षित ग्रामों के सूची की विवरणी परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।
- (2) हरिनगर चीनी मिल की आपत्ति को रद्द करते हुए नरकटियागंज चीनी मिल को मैनाटांड के 97 ग्राम अगले 5 वर्षों तक आरक्षित किया जाता है, जिसकी सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।
- (3) सिकटा एवं धनहां क्षेत्र आरक्षण हेतु नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा किये गये दावा को खारिज किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

जय मंगल सिंह,

ईखायुक्त।

परिशिष्ट 'क'

पेराई वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिये

न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज को परम्परागत आरक्षित गांवों की सूची

प्रखण्ड	क्र० सं०	गाँव का नाम	राजस्व थाना संख्या
नरकटियागंज	1	बड़गो	90
	2	मेडरौल	91
	3	परसी	92
	4	भतौरा	104
	5	मनवा	106
	6	विष्णुपुरवा	107
	7	महुअवा	108
	8	पिपरा	109
	9	मझरिया	110
	10	शिकारपुर बाजार	111
	11	बरगजवा	112
	12	पकड़ी	113
	13	शिसवा	114
	14	सितवापुर	115
	15	हरदी टेढ़ा	116
	16	महेशपुर	119
	17	सतवरिया	120
	18	डी. के. शिकारपुर	121
	19	इनरवा	122
	20	मुजौना	123
	21	केशरिया	124
	22	मझरिया	125
	23	कुन्डीलपुर	126
	24	विशम्भरापुर	127
	25	बरगजवा	128
	26	कुकुरा	129
	27	चनपटिया	130
	28	त्रिलोकवा	131
	29	नौतनवां	132
	30	ओडरवा	133
	31	मुरली	134
	32	टोला पड़रिया	135
	33	फुलवरिया	263
	34	सखुअनिया	264
	35	पचमवा	265
	36	धोबहा	266
	37	रखही	267
	38	मलदा	268
	39	बैरिया	269
	40	मल्दी	270
	41	तरहरवा	271
	42	चिन्तामनपुर	272
	43	शिशई	273
	44	चंपापुर	274

प्रखण्ड	क्र० सं०	गाँव का नाम	राजस्व थाना संख्या
	45	तरहटिया	275
	46	धरहरवा	276
	47	खैरवा	309
	48	मथुरा	310
	49	सियरही	311
	50	बेलवनियां	312
	51	गोखुला	313
	52	दुर्गवलिया	314
	53	नन्हकार	315
	54	मोतिहारी	316
	55	बरवा	317
	56	अररिया	318
	57	मंगरहरी बैरिया	319
	58	मंगरहरी	320
	59	भसुरारी	321
	60	पोखरिया	322
	61	बरवा बरौली	323
	62	सोनासती	324
	63	राजपुर	325
	64	महुअवा	326
	65	मुशहरवा	327
	66	गेडुरहा	328
	67	पोईया	329
	68	थमिनाहा	330
	69	हरसरी	331
	70	पुरैनिया	332
	71	कोइरगांवा	333
	72	तुमकड़िया	334
	73	कठघरवा	335
	74	नरकटिया	336
	75	विशुनपुरवा	337
	76	पिपरा	338
	77	सोफवा	339
	78	बरवा	340
	79	हरदिया	341
	80	दिउलिया	342
	81	जयमंगलापुर	343
	82	जमुनिया	344
	83	बूत मटियरिया	345
	84	ढाठ मटियरिया	346
	85	मठिया	347
	86	खिरिया	348
	87	मड़िया	349
	88	सेढवा	350
	89	मटियरिया	351
	90	धुमनगर	352
	91	टेढी कुईया	353

प्रखण्ड	क्र० सं०	गाँव का नाम	राजस्व थाना संख्या
	92	चेगौना	354
	93	पोखरिया	355
	94	मलहदिया	356
	95	मुरली	357
	96	सेमरा	358
	97	लौकरिया	359
	98	सुगौली	360
	99	बनवरया	361
	100	सनवाहा	362
	101	कौलाची	363
	102	इमिलिया	364
	103	जमुनिया	365
	104	अजंतुआ	367
	105	मुरली पिपरा (मठिया)	368
	106	मुजौना	369
	107	बहुअरवा	370
	108	चौडबर	371
	109	सिसवा	372
	110	बहुअरवा	373
	111	पिपरा	380
	112	रोआरी	460
	113	सिसवा	461
	114	बीजबनिया	462
	115	केहुनिया	463
	116	गोबरधना	464
	117	परोरहा	467
	118	पकड़ी डीह	468
	119	भगौना	469
	120	बसवरिया	470
	121	हिछोपाल	471
	122	सेमरी	472
	123	कटहरी	473
	124	खाप कटहरी	474
	125	हिछोपाल	492
	126	बेलवा	493
	127	बैतापुर	494
	128	मढिया	495
	129	रामपुर	496
	130	भेड़ीहरवा	497
	131	सिरिसिया	498
	132	हइसवा	499
	133	भभटा	500
	134	समहौता	501
	135	सोमगढ़	502
	136	बढ़निहार	652
	137	हरपुर	653
	138	बखरी	654

प्रखण्ड	क्र० सं०	गाँव का नाम	राजस्व थाना संख्या
	139	बलुआ	655
	140	सितापुर	656
	141	बरवा	657
	142	खरकटवा	658
	143	सिंगहवा	666
	144	सलेमपुर	668
	145	पिपरा	669
	146	सैदपुर	669
	147	चानकी	671
	148	बिनबलिया	672
गौनाहा	149	शेरपुर	19
	150	लौटाहा	20
	151	मंडीहा	21
	152	बखरी	22
	153	विजयपुर	23
	154	जगन्नाथपुर	24
	155	सिठी	25
	156	बिशुनपुरवा	26
	157	पचकहर	27
	158	गमहरिया	28
	159	टहकौल	29
	160	पहकौल	30
	161	पकड़ी कला	34
	162	बेलसंडी	35
	163	सलेमपुर	50
	164	बलुआ एकमी	51
	165	मितनी	52
	166	भठियानी	53
	167	कोहरगड्डी	54
	168	बसवरिया	55
	169	तारा	56
	170	सेमरी	57
	171	सरफरवा	58
	172	पिड़ारी	59
	173	बजनी	60
	174	जमहौली	61
	175	डुमरी	62
	176	हरकटवा	63
	177	मंगुराहा	64
	178	गौनाहा	65
	179	रूपवलिया	66
	180	हरपुर	67
	181	परसा	68
	182	रामपुरवा	69
	183	पिपरिया	70
	184	बैरिया डीह	71
	185	भित्तिहरवा	72

प्रखण्ड	क्र० सं०	गाँव का नाम	राजस्व थाना संख्या
	186	बैरठवा	73
	187	ढुढी-ढनहवा	74
	188	मर्जददी	75
	189	मर्जादपुर	76
	190	गोईठही	77
	191	बेलवा बहुअरी	78
	192	बैरिया	79
	193	माधोपुर	80
	194	सेमरा श्रीमपुर	81
	195	बलुआ	82
	196	पकड़ बिसौली	83
	197	सैनथौल	84
	198	सिंहपुरवा	85
	199	सेढवा	86
	200	पलिया	87
	201	हरदी बेलहवा	88
	202	बसन्तपुर	89
	203	लछनौता	93
	204	न. मझरिया	94
	205	जड़िया	95
	206	बसन्तपुर	96
	207	बेलवा	97
	208	अमोलवा	98
	209	मुरली भरहवा	99
	210	पिपरा उत्तर	100
	211	अजिया सेढवा	101
	212	पचरुखिया	102
	213	महुआ-भूसा	103
	214	पोहरा	105
	215	हरपुर	117
	216	पटखौली	118
	217	बैरिया	138
	218	बजड़ा	139
	219	खरकटवा	140
	220	बेलवा	141
	221	मठ मझरिया	142
	222	राजपुर	143
	223	मसही	144
	224	कामता राजपुर	145
	225	छतमी	146
	226	असुरारी	147
	227	कौवाहा	148
	228	सेढवा	149
	229	मंडीहा	150
	230	बलुआ	151
	231	पिपरा	152
	232	बंशपुर	153

प्रखण्ड	क्र० सं०	गाँव का नाम	राजस्व थाना संख्या
	233	पडरौन	154
	234	बहुअरवा	155
	235	बरवा	156
	236	अररिया	162
	237	भवानीपुर	163
	238	गेन्हरिया	164
	239	धनौजी	165
	240	कटरांव	166
	241	बेदौली	167
	242	पहकौल	168
	243	बैरिया डीह	169
	244	शिशई	170
	245	रतनी	171
	246	रतनपुरवा	172
	247	प्रसण्डा	173
	248	डुमरिया	174
	249	डोमाठ	175
	250	विशुनपुरवा	176
	251	कैरी	177
	252	कटया	178
	253	महाजोगीन	179
	254	धर्मपुर	180
	255	भोटगांव	181
	256	घेघवलिया	182
	257	राजपुर	183
	258	सोनखर	184
	259	बलबल	185
	260	परसा	186
	261	बेतहनिया	187
	262	शम्भुपुर	188
	263	भवानीपुर	189
	264	बैरिया	190
	265	भटनी	191
	266	गौनाहा	192
	267	देवाढ़	193
	268	गौनाहा	194
	269	जमुनियां	195
	270	गम्हरिया	196
	271	लक्ष्मीपुर	197
	272	बनबैरिया	201
	273	धमौरा	202
	274	सुपौली	203
	275	खैरटिया	204
	276	एकवा	205
	277	भतुजला	206
	278	परसौनी	207
	279	भिखना ठोरी	683

प्रखण्ड	क्र० सं०	गाँव का नाम	राजस्व थाना संख्या
लौरिया	280	कोन्हवलिया	408
	281	बसवरिया	409
	282	गौनाहा	410
	283	दुमदुमवा	411
	284	सहुआ टांड	412
	285	मुर्तिया	413
	286	पकड़ी	414
	287	नन्हकार	415
	288	लाकड़	416
	289	सिसई	417
	290	धोबनी	418
	291	रमौली	419
	292	बेलवा	420
	293	सिकटा	421
	294	बकुलहिया	422
	295	लिपनी	423
	296	चनपटिया	424
	297	बरबिरो	425
	298	रामपरसौना	454
	299	बहुअरवा	455
	300	सुअरछाप	456
	301	गोबरौआ	457
	302	मटियरिया	458
	303	बघलोचना	459
	304	जमुनिया बाजार	465
	305	नोनी पाकड़	466
	306	खजुरिया	475
	307	नन्द टोला	476
	308	गोनाही	477
	309	बृत्त गोनाही	478
	310	धरमपुर	479
	311	मुशहरी	480
	312	धोबनी	481
	313	रायबरवा	491
	314	साठी	503

परम्परागत कुल गांव—

314

परिशिष्ट- 'ख'
पेराई वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स, नरकटियागंज
मैनाटांड प्रखण्ड के 97 गाँवों की सूची

क्र० सं०	गाँव का नाम	थाना नं०
1	कौलापुर	136
2	भथुअवा	137
3	डमरापुर	157
4	त्रिलोजपुर	158
5	दुधौरा	159
6	शीतलापुर फार्म	160
7	भिरभिरवा	161
8	बिरंची नं० 3	198
9	लौकर	199
10	पुरैनिया	200
11	मनपुर	208
12	चकरसन	209
13	गमहरिया	210
14	हरदिया	211
15	पड़रिया	212
16	पचगछिया	213
17	जिन्गना	214
18	पचरउता	215
19	रामपुर	216
20	चौहट्टा	217
21	थोकराहा	218
22	बकुलहिया	219
23	बरवा परसौनी	220
24	सहनौला	221
25	पकड़ी	222
26	बरवा	223
27	पचरुखा	224
28	सिरहवा	225
29	पचरुखी	226
30	पिपरा	227
31	बेहरी	228
32	जसौली	229
33	धुमाटाड़	230
34	अहिर सिसवा	231
35	भंगहा	232
36	साहपुर परसौनी	233

37	जब्दी	234
38	झुमका	235
39	कौलापुर	236
40	परसौनी	237
41	पद्योल	238
42	पिड़ारी	239
43	सेनवरिया	240
44	झंझरी	241
45	घोड़पकड़ी	242
46	सबेया	243
47	नगरदेही	244
48	इनरवा	245
49	भटकौल	246
50	सकरौल	247
51	बैरिया	248
52	खमीआ	249
53	रामपुरवा	250
54	भहुअटिया	251
55	बसन्तपुर	252
56	छपरिया टोला	253
57	दिउलिया	254
58	पिपरपाती	255
59	सिंगासिनी	256
60	बहुअरवा	257
61	पुरैनिया	258
62	चिउटाहा	259
63	धोबिनी	260
64	इनरवा	261
65	बसन्तपुर	262
66	लिपनी	277
67	अशोकवा	278
68	भरवलिया	279
69	बौध बरवा	280
70	बेलवा डीह	281
71	लंगड़ी	282
72	रामनगरी	283
73	मैनाटांड	284
74	बभनौली	285
75	भेड़िहरवा	286

76	पपुहवा	287
77	बहुअरवा तिलंगी	288
78	परषोतिमपुर	289
79	मधुरी	290
80	बहुअरवा	291
81	नरकटिया	292
82	लक्ष्मीपुर	293
83	भड़भड़वा	294
84	भेड़िहारी	295
85	मरजदवा	296
86	महुअवा	297
87	परसा	298
88	भलुअहियां	299
89	बलिरामपुर	300
90	बेलवनिया	301
91	मंझरिया	302
92	संतपुर परसौनी	303
93	बष्ठा	304
94	संतपुर पिपरा	305
95	विशुनपुरवा	306
96	गौरीपुर	307
97	सुखलही	308

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय मंगल सिंह,
ईखायुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 711-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>